

विद्या भवन, बालिका विद्यापीठ, लखीसराय

वर्ग -सप्तम

विषय -हिंदी

काल किसे कहते हैं ? काल के कितने भेद हैं।



काल- काल का अर्थ है 'समय'।

क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध हो उसे **काल** कहते हैं।

भेद-

काल के तीन भेद होते हैं-

- वर्तमान काल
- भूतकाल
- भविष्यत् काल

वर्तमान काल-

क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं।

जैसे-

- वह खेल रहा है।
- राधा सो रही है।
- मैं लिखती हूँ।

वर्तमान काल के तीन उपभेद होते हैं-

- (क) सामान्य वर्तमान
- (ख) अपूर्ण वर्तमान
- (ग) संदिग्ध वर्तमान।

सामान्य वर्तमान- क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान में होना ज्ञात हो वह सामान्य वर्तमान होता है

जैसे-

- माँ अच्छा खाना बनाती है।
- अतुल पढ़ता है।

अपूर्ण वर्तमान- क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं।

जैसे-

- मैं लिख रही हूँ।
- तुम खेल रहे हो।
- वह सो रही है।

संदिग्ध वर्तमान- क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं।

जैसे-

- राधा पढ़ रही होगी।
- सीता गीत गा रही होगी।
- अतुल सो रहा होगा।

भूतकाल- क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं।
जैसे-

- राम ने पत्र लिखा।

भूतकाल के छह भेद होते हैं-

सामान्य भूतकाल- क्रिया के जिस रूप से साधारणतः क्रिया का बीते समय में होना पाया जाये उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।

जैसे-

- राधा ने गीत गाया।

आसन्न भूतकाल- आसन्न भूतकाल से यह जाना जाता है कि काम भूतकाल से शुरू होकर अभी-अभी समाप्त हुआ है।

जैसे-

- राधा ने अभी खाना खाया है।
- मैं खाना खा चुका हूँ।

पूर्ण भूतकाल- क्रिया के जिस रूप में काम का बहुत समय पहले बीत जाने का बोध होता है उसे पूर्णभूत काल कहते हैं।

जैसे-

- डॉ. रोगी को देख चुका था।
- रोगी ठीक हो चुका था।

अपूर्ण भूतकाल- क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते समय शुरू हुआ था किंतु समाप्त भूतकाल में सूचित न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं।
जैसे-

- अरुण झूठ बोल रहा था।
- पक्षी वृक्षों पर चहचहा रहे थे।

संदिग्ध भूतकाल- क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं।
जैसे-

- राधा ने पुस्तक पढ़ ली होगी।
- वह चला गया होगा।

हेतुहेतुमद् भूतकाल- जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो वहाँ हेतुहेतुमद् भूतकाल होता है।
जैसे-

- यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती।
- यदि डॉक्टर समय पर आता तो मरीज नहीं मरता।

भविष्यत् काल- क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का पता चले उसे भविष्यत् काल कहते हैं।
जैसे-

- वह पटना नहीं जाएगा।
- कल मोहन बाजार जाएगा।
- हम मैच देखेंगे। इत्यादि।